



## केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)



O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX

सत्यमेव जयते

केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन,

7<sup>th</sup> Floor, Central Excise Building,  
Near Polytechnic,

सातवीं मंजिल, पॉलिटेकनिक के पास,  
आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015

Ambavadi, Ahmedabad-380015



079-26305065



079-26305136

रजिस्टर डाक ए.डी.द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2 (29)47&52/Ahd-II/Appeals-II/2016-17

स्थगन आवेदन संख्या(Stay App. No.):

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP-70-71-17-18

दिनांक (Date): 8/29/2017, जारी करने की तारीख (Date of issue): 22/9/17

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग \_\_\_\_\_ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-I), अहमदाबाद- II, आयुक्तालय द्वारा जारी

मूल आदेश सं \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से सृजित

Arising out of Order-In-Original No.(I) 02/AKA/Supdt/AR-I/DN-1/Ahd-II/2016-17

Dated: 05/05/16 & 01/AKA/Supdt/AR-I/DN-1/Ahd-II/2016-17 Dated: 05/05/2016

issued by: Supdt. Commissioner Central Excise (Div-I), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. (100% EOU)

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following- case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।



Cont...2

- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-


- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैटल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से



रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



### ORDER IN APPEAL

M/s. Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd, 1216/20, GIDC , Phase-IV, Naroda Ahmedabad. - (*hereinafter referred to as 'appellants'*) have filed the present appeals against the Order-in-Original number 01 & 02/AKA/Supdt./AR-I/DN-I/AHD-II/2016-17 both dated 05.05.2016 and (*hereinafter referred to as 'impugned orders'*) passed by the Superintendent Div-I, Ahmedabad-II (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*);

2. The facts of the case, in brief, are that the appellant, is interalia engaged in the manufacture and export of bulk drugs and chemicals holding the registration No. AACD4164DXM001 and AACD4164DXM007 respectively had wrongly availed the cenvat credit on courier services during the period March 2015 to September 2015 for the amount of Rs. 9336/- and during the period January 2015 to September 2015 for the amount of Rs. 12168/- (Total of Rs. 21504/-).


3. Appellant is contending that there is a definition of input service under Rule 2(I) of CCR, 2004 which includes services used by a manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products. The phrase in relation to has very wide connotation and coverage.

4. Being aggrieved with the impugned order, the appellants preferred an appeal on 20.06.2016 before the Commissioner (Appeals) wherein it is contended that it is also a well settled law that when the demand itself is not sustainable, mandatory penalty cannot be imposed. Since it is already proved beyond doubt that there is correct availment of CENVAT credit on courier services by the appellant.

5. Personal hearing in the case was granted on 21.08.2017. Shri Vikash Agarwal, CA, appeared before me and reiterated the contents of appeal memo and requested that the department should allow the cenvat credit .

6. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral submissions made by the appellants at the time of personal hearing.

7. The adjudicating authority stated in their OIO that the courier service is not falling even in the inclusive part of the definition of Input service. Therefore, the courier service does not fall under the definition of Input Service under rule 2(I) of CCR , 2004.



As regard, **Courier Service**, the appellant has submitted that courier/postage service utilized by them for delivering documents to the buyers is in relation to business activity and thus same is admissible. The activity of sending documents is also a part of business activity, and thus courier service are in the nature of activities relating to business because their business of manufacturing and selling goods could continue and flourish only if they use courier service. Merely saying that the courier/postage service is not an input service can not be proper to disallow the credit. In this regard, the appellant has placed reliance upon the decisions in respect of (i) The hon'ble Supreme Court in the land mark judgement of Doypack Systems (P) Ltd. Vs. Union of India [1988(36)E.L.T.201 (S.C.)] (ii) Order dated 12.08.2010 of Hon'ble CESTAT Ahmedabad [ Appeal No. E/1838-39/ (iii) Commissioner of Service tax Vs. MMS Maritime (India) Pvt. Ltd. [2016(41) S.T. R. 869( Tri.- Mumbai)] in their favour in this regard. I find that said judgments support their claim very much. The Hon'ble CESTAT, WZB, Ahmedabad in case of Tufropes Pvt. Ltd V/s C.C.E., Vapi reported at 2012 (227) E.L.T. 359(Tri.-Ahmd.) has held that:

*" Learned counsel submits that courier service has been utilized for sending documents/invoices etc. to various customers other plants and offices and submits that all these documents/invoices are relatable to the manufacture of the products by the appellants and therefore credit is admissible. I find that sending documents/invoices to various customers, other plants, offices is definitely relatable to manufacture and therefore credit is admissible. The learned counsel relied upon the decision of the Tribunal in the case of Hindalco Industries Ltd. vide Order No. A/2147/WZB/AHD/11, dated 2-12-2011. Since I find that appellants are eligible for the benefit, the appeal is allowed with consequential relief to the appellants."*

Accordingly, courier service was directly concerned with in relation prospective customer in relation to sale of goods manufacture by the appellant and there is no dispute on the fact that this service was availed by the appellant for the same , and hence was in the nature of an input service. Therefore, respectfully following the above decision, I allow the credit of Service Tax paid on courier/ postage service. Accordingly, respectfully following the above judgment, I allow the credit of Service Tax paid on courier/postage service.

9. In view of the facts and discussions hereinabove, I allow the appeal filed by the appellant and set aside the impugned order.



10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

*उमा शंकर*  
(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

ATTESTED

*R.R. Patel*  
(R.R. PATEL)

SUPERINTENDENT (APPEAL),

CENTRAL TAX, AHMEDABAD.

To,

M/s. Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd, 1216/20, GIDC , Phase-IV,  
Naroda Ahmedabad.

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, Ahmedabad- North.
- 3) The Asst. Commissioner, Div-I, Ahmedabad- North.
- 4) The Additional Commissioner Div-I, Ahmedabad- North.,
- 5) Guard File.
- 6) P.A. File.

- Received

P. b. shah

[25/09/13]